

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय सेवा योजना

दिनांक 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पावटा साहिब की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा " पर्यावरण की सुरक्षा जीवन की रक्षा " विषय पर 8 स्वयंसेवियों ने पोस्टर्स बनाकर व्हाट्स एप्प ग्रुप पर सांझा किये तथा एक ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में कुल 14 स्वयंसेवियों ने भाग लेकर पर्यावरण पर अपने अपने विचार सांझा किये। प्रो० दीपाली, प्रो० उषा जोशी तथा प्रो० भारती ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के आरंभ में प्रो० अरुण ने मुख्य अतिथि डॉ वीना राठौर व सभी का स्वागत किया। प्रो० विष्मी रानी, प्रवक्ता भूगोल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मनुष्य को अपनी जीवन शैली को बदलने पर जोर दिया। तत्पश्चात प्रो० रीना चौहान ने कोरोना महामारी के दौरान महाविद्यालय की एन० एस० एस० यूनिट द्वारा किये जा रहे विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों पर प्रकाश डाला। मंच संचालन कर रहे भार्गव व अंशुल ने भाषण प्रतियोगिता के लिए सपना, कविता, मोनिका, काजल, वंशिका , शीतल राणा, पूजा , अमित तिवारी, रंजन, तनु, हरमीत, नितिका, वंदना राठौर को बारी बारी से बुलाया। प्राचार्या डॉ वीना राठौर ने पर्यावरण दिवस पर सबको परंपरागत एवम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में बताया । उन्होंने स्वयंसेवियों से महाविद्यालय को "जीरो वेस्ट" कॉलेज बनाने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने परिणाम घोषित किया जिसमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में समीर खान (बी० सी० ए० तृतीय वर्ष) प्रथम, मोनिका (बी०ए० तृतीय वर्ष) द्वितीय तथा निशा शर्मा (बी० एस० सी० द्वितीय वर्ष) तृतीय स्थान पर रहे। भाषण प्रतियोगिता में वंशिका जैन (बी० एस० सी० तृतीय वर्ष) -प्रथम, करुणा (बी० ए० द्वितीय वर्ष)- द्वितीय तथा नितिका (बी० ए० तृतीय वर्ष) तृतीय स्थान पर रही। प्राचार्या ने विजेताओं को बधाई देते हुए सभी के प्रयासों की सराहना की। स्वयंसेवी अमित तिवारी ने "हम पंछी उन्मुक्त गगन के" कविता को सुरबध कर सुनाया । अंत में प्रो० रीना चौहान प्रोग्राम ऑफिसर ने सभी का धन्यवाद किया । राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया।

सुरक्षा जीवन की रक्षा पर सजी प्रतियोगिता



पांवटा साहिब। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा जीवन की रक्षा विषय पर आठ स्वयंसेवियों ने पोस्टर बनाकर क्लबसपेप ग्रुप पर साझा किए तथा एक ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डा. वीना राठी ने पर्यावरण दिवस पर सभी को परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में बताया। अंत

में उन्होंने परिणाम घोषित किया, जिसमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में समीर खान बीसीए तृतीय वर्ष प्रथम, मोनिका बीए तृतीय वर्ष द्वितीय तथा निशा शर्मा बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय स्थान पर रहे। भाषण प्रतियोगिता में वशिका जैन बीएससी तृतीय वर्ष प्रथम, करुणा बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय तथा नितिका बीए तृतीय वर्ष तृतीय स्थान पर रही। अंत में प्रो. रीना चौहान प्रोग्राम ऑफिसर ने सभी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में प्राचार्य एवं निर्णायक मंडल के साथ-साथ प्रो. विन्मी रानी, प्रो. सुलक्षण शर्मा, प्रो. रिकू ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आयोजन कमेटी में प्रोग्राम ऑफिसर प्रो. रीना चौहान व प्रो. अरुण के साथ-साथ स्वयंसेवक भार्गव, शिवानी, नूतन, अंकित, अमित ने संयुक्त रूप से अपनी भूमिका निभाई।



